

कौमारभृत्य

अथवा

बालचिकित्सा ।



लेखक—

मू० ॥॥)

विवेचक